

**प्रेस-विज्ञप्ति**  
**जनपद कानपुर देहात।**

**दिनांक 27.12.2020**

**थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा कर 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

वादी श्री सतीश चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० अखिलेश चन्द्र गुप्ता नि० रनियां बाजार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर मु०अ०स० 997 /2020 धारा 457/380 भा०द०वि० बावत रनियां बाजार स्थित गुप्ता टेलीकाम से दिनांक 18/19.12.2020 की मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा मोबाइल शाप की पिछली दीवार में सेंध लगाकर दुकान में रखे लगभग 70 एन्ड्राइड मोबाइल व 1 लैपटाप व गोलक में रखे फुटकर 1100 रुपये तथा बिल बुक व उधार खाता के रजिस्टर सहित दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे व उसकी हार्ड डिस्क सहित दुकान में रखे रिपेयरिंग के लिए मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत हुआ। उक्त चोरी गये माल की बरामदगी हेतु कई टीम लगाकर लगातार दबिश दी जा रही थी।

आज दिनांक 27.12.2020 को सुरागरसी पतारसी करते हुए उपनिरीक्षक गजेन्द्रपाल सिंह मय हमराह फोर्स SI शमशेर बहादुर सिंह, SI जितेन्द्र कुमार, का० 241 लोकेन्द्र, का० 41 देवेन्द्र चाहर, का० 191 केशव यादव, हे०का० 109 नन्दलाल के मय जीप सरकारी UP77G0379 व चालक HC भूपेन्द्र सिंह के मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान रायपुर गजनेर मोड़ से अंतर्जनपदीय अपराधी 1. रामसजीवन उर्फ पिट्टर पुत्र स्व० कन्हैया नि० चकेरी मोड़ कच्ची मड़ईयन बस्ती केडीए रिलायंस टावर के सामने थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 27 वर्ष 2. कमल किशोर उर्फ सिन्टू पुत्र चिन्ता प्रसाद नि० उरईहार थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 21 वर्ष को चोरी गये **26 अदद मोबाइल व जले लैपटाप व हार्ड डिस्क के अवशेष व 1,000/- रुपया और 01 मोटर साइकिल पैशन प्रो० नम्बर UP78ED 1759 के साथ समय करीब 03.45 बजे गिरफ्तार** किया गया। उपरोक्त पकड़े गये अंतर्जनपदीय चोरों का एक बड़ा गिरोह है जिन्होंने जनपद कानपुर नगर, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ आदि स्थानों पर चोरी की है जिनके कई साथी अन्य अभियोगों में जेल में बंद है। **श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन और श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ व घटनाओं के अनावरण में चलाये जा रहे अभियान के तहत श्री तुलसीराम पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर व चौकी प्रभारी प्रभारी रनियां गजेन्द्र पाल सिंह व उनकी टीम द्वारा सतत व निरंतर प्रयास करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी की। बरामद माल की **कीमत लगभग 6,50,000/- रुपये** है। घटना के अनावरण से व्यापारी वर्ग में हर्ष की लहर है। अपराध की दृष्टि से अकबरपुर कानपुर देहात की पुलिस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई।**

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-**

1. रामसजीवन उर्फ पिट्टर पुत्र स्व० कन्हैया नि० चकेरी मोड़ कच्ची मड़ईयन बस्ती केडीए रिलायंस टावर के सामने थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 27 वर्ष

2. कमल किशोर उर्फ सिन्टू पुत्र चिन्ता प्रसाद नि0 उरईहार थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 21 वर्ष

**बरामद माल का विवरण:-**

26 अदद मोबाइल व जले लैपटाप व हार्ड डिस्क के अवशेष व 1,000/- रुपया और 01 मोटर साइकिल पैशन प्रो0 नम्बर UP78ED 1759 कीमती लगभग 6,50,000/- रूपये।

**आपराधिक इतिहास:**

**A. रामसजीवन उर्फ पिट्टर पुत्र स्व0 कन्हैया नि0 चकेरी मोड़ कच्ची मड़ईयन बस्ती केडीए रिलायंस टावर के सामने थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 27 वर्ष**

1. मु0अ0स0 1040/15 धारा 392/506 भादवि0 थाना कल्यानपुर कानपुर नगर।
2. मु0अ0स0 02/16 धारा 401 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर।
3. मु0अ0स0 813/19 धारा 18/20 NDPS ACT थाना चकेरी कानपुर नगर।
4. मु0अ0स0 580/20 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना महाराजपुर कानपुर नगर।
5. मु0अ0स0 626/20 धारा 379/411/441 भादवि0थाना महाराजपुर का0नगर।
6. मु0अ0स0 631/20 धारा 41/411/380 भादवि0 थाना महाराजपुर कानपुर नगर।
7. मु0अ0स0 799/80 धारा 380 भादवि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
8. मु0अ0स0 997/20 धारा 457/380 भादवि0 थाना अकबरपुर का0दे0।
9. मु0अ0स0 130/20 धारा 188/269/270 भादवि0 थाना महाराजपुर कानपुर नगर।

**B. कमल किशोर उर्फ सिन्टू पुत्र चिन्ता प्रसाद नि0 उरईहार थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 21 वर्ष**

1. मु0अ0स0 799/80 धारा 380 भादवि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात
2. मु0अ0स0 997/20 धारा 457/380 भादवि0 थाना अकबरपुर का0दे0

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

- A. श्री तुलसीराम पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- B. श्री प्रभात सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात
- C. उप निरीक्षक गजेन्द्रपाल सिंह चौकी प्रभारी रनियां थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- D. उप निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- E. उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- F. प्रशान्त गौतम प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद कानपुर देहात।
- G. हे0का0 109 नन्दलाल थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- H. का0 जयकुमार स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
- I. का0 दुर्गेश स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
- J. का0 117 अजीत सिंह सर्विलांस टीम जनपद कानपुर देहात।
- K. का0 ध्यानेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम जनपद कानपुर देहात।

- L. का0 241 लोकेन्द्र थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।  
M. का0 41 देवेन्द्र चाहर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।  
N. का0 191 केशव यादव थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।